



hundrED

K12 एजुकेशन के अंतर्गत एजुकेट गर्ल्स दुनिया की 100 सबसे प्रेरणादायक नवाचारों में शामिल

- HundrED ने अपने 4वें वार्षिक ग्लोबल कलेक्शन की घोषणा की है और एजुकेट गर्ल्स अब K12 शिक्षा में 100 सबसे प्रभावशाली, स्केलेबल नवाचारों में शामिल है।

11 नवंबर, 2020, मुंबई (भारत): भारत के दूरस्थ गांवों में लड़कियों की शिक्षा के माध्यम से लैंगिक समानता लाने के लिए काम करने वाली एक गैर-लाभकारी संस्था **एजुकेट गर्ल्स** ने, **HundrED 2021 ग्लोबल कलेक्शन** में सबसे प्रेरणादायक नवाचारों में से एक के रूप में अपने चयन की घोषणा की है। एजुकेट गर्ल्स को उसके अद्वितीय दृष्टिकोण और शिक्षा में एक स्थायी प्रभाव पैदा करने की क्षमता के कारण चुना गया था। यह घोषणा पूर्ण रूप से वर्चुअल ऑनलाइन HundrED इनोवेशन समिट की घोषणा के एक भाग में की गयी थी।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध शिक्षा से सम्बंधित गैर-लाभकारी संस्था HundrED 2021 का वार्षिक ग्लोबल कलेक्शन दुनिया भर से K12 शिक्षा में 100 सबसे प्रभावी नवाचारों को विशिष्ट रूप से दर्शाता है। HundrED के चेयरमैन और क्रिएटिव डायरेक्टर सकु टूमिनन ने कहा, "देश की सीमाओं के पार नवाचारों का विस्तारण दुनिया भर में शिक्षा के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। हम स्कूल, शिक्षक, प्रशासक, छात्र संगठनों सहित कई हितधारकों को शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना जारी रखेंगे ताकि हम सकारात्मक भविष्य की दिशा में काम कर सकें।"

50 मिलियन से अधिक लड़कियों को स्कूल जाने के लिए सशक्त बनाने के एजुकेट गर्ल्स के नवाचार की 150 अकादमी सदस्यों द्वारा समीक्षा की गई जिसमें 50 से अधिक देशों के शिक्षाविद, शिक्षक, नवप्रवर्तक शामिल थे। HundrED अकादमी के सदस्य ने एजुकेट गर्ल्स के नवाचार का चयन करते हुए कहा, "इस नवाचार ने बहुत उच्च स्तर के प्रभाव और मापनीयता का प्रदर्शन किया है, जो उनके द्वारा तय किए गए साहसी लक्ष्यों से बहुत अच्छी तरह मेल खाता है। HundrED अकादमी के एक अन्य सदस्य ने कहा, "यह संगठन स्पष्ट रूप से मिशन को सम्बोधित करता है जो है - यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों को उनकी परिस्थितियों के बावजूद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। यह नवाचार एक सांस्कृतिक ज़रूरत को सम्बोधित कर रहा है और शिक्षित किए जाने वाली लड़कियों के मूल्यांकन के कलंक को तोड़ने की कोशिश कर रहा है।" 2021 के ग्लोबल कलेक्शन की इस घोषणा के साथ, HundrED का उद्देश्य दुनिया भर में कई संदर्भों को फैलाने और अनुरूप बनाने के लिए शैक्षणिक रूप से दृढ़, महत्वाकांक्षी नवाचारों की मदद करके एक आंदोलन को प्रेरित करना है।

एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक सफीना हुसैन का कहना है "लड़कियों की शिक्षा किसी भी देश का सर्वोत्तम निवेश है। मैं इस विषय के महत्व को पहचानने के लिए, विशेष रूप से इस समय शिक्षा के इस वैश्विक व्यवधान के दौरान शिक्षा के महत्व को पहचानने के लिए HundrED की आभारी हूँ। हमारा लक्ष्य है कि अगले चार वर्षों में ग्रामीण भारत में सर्वाधिक पिछड़े समुदायों में अनामंकित लड़कियों की पहचान, नामांकन और उनके ठहराव के लिए

उन्नत विश्लेषिकी और सामुदायिक संगठन का उपयोग करते हुए, एक लाख से अधिक लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाया जाए।”

तकनीकी सहयोग के माध्यम से, एजुकेट गर्ल्स ने उन 5% गांवों की पहचान की है, जिसमें भारत की 40% स्कूल ना जाने वाली लड़कियां रहती हैं। इन लड़कियों की पहचान करने, उनके नामांकन और उनके ठहराव के केंद्रित दृष्टिकोण के साथ, अपने सुधारात्मक पाठ्यक्रम के माध्यम से निरंतर सीखने को सुनिश्चित करते हुए, एजुकेट गर्ल्स ने 2007 में अपनी स्थापना के बाद से 1.3 मिलियन से अधिक बच्चों के सीखने के परिणामों में सुधार किया है। यह संगठन शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया के पहले डिवेलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड के रूप में जाना जाता है और एक साहसी परियोजना बनने वाला पहला एशियाई गैर-लाभकारी संगठन है।

एजुकेट गर्ल्स के बारे में: एजुकेट गर्ल्स एक गैर-लाभकारी संगठन है जो भारत के ग्रामीण और शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा के लिए समुदायों को एकजुट करने पर केंद्रित है। सरकार के साथ साझेदारी में काम करते हुए, एजुकेट गर्ल्स वर्तमान में राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 18,000 से अधिक गांवों में सफलतापूर्वक काम कर रही है। सामुदायिक स्वयंसेवकों के एक विशाल समूह के साथ जुड़कर, एजुकेट गर्ल्स स्कूल न जाने वाली लड़कियों की पहचान, नामांकन और उनके ठहराव और सभी बच्चों (लड़कियों और लड़कों दोनों) की साक्षरता और संख्यात्मकता के मूलभूत कौशल में सुधार करने में मदद करती है। अधिक जानकारी के लिए - www.EducateGirls.ngo | फेसबुक | लिंकडइन | ट्विटर | इंस्टाग्राम | ब्लॉग | यूट्यूब

मीडिया संपर्क

Sumedha.Mahorey@EducateGirls.ngo

HundrED

फिनलैंड स्थित गैर-लाभकारी संस्था, HundrED खोज, शोध करके प्रेरणादायक नवाचारों को K12 शिक्षा में सांझा करती है। उनका लक्ष्य शिक्षा को बेहतर बनाने में मदद करना है और दुनिया भर में, सन्दर्भित विचारशील, प्रभावशाली और स्केलेबल नवाचारों को प्रोत्साहित करने के माध्यम से एक आंदोलन को बढ़ावा देना है। HundrED स्पॉटलाइट्स शैक्षिक पेशेवरों और स्वतंत्र आयोजकों दोनों के लिए अद्वितीय अवसर पैदा करती है, ताकि शिक्षा के एक विशिष्ट क्षेत्र में जैसे साक्षरता या स्थिरता या एक निश्चित भौगोलिक स्थान जैसे भारत में या लंदन में होने वाले शिक्षा नवाचारों की पूरी तरह से जानकारी मिल सके। प्रत्येक स्पॉटलाइट के लिए, हम उज्वल शिक्षा नवाचारों का चयन करते हैं, जो तब हमारी रिसर्च टीम और एक विशेषज्ञ सलाहकार बोर्ड द्वारा गहन अध्ययन से गुजरते हैं। HundrED स्पॉटलाइट्स साझेदार संगठनों के साथ आयोजित किए जाते हैं, जो अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र द्वारा मदद करते हैं।

www.hundred.org

मीडिया संपर्क

MariahMara@hundred.org